



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 ज्येष्ठ 1940 (श10)
(सं0 पटना 471) पटना, शुक्रवार, 25 मई 2018

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

24 मई 2018

सं0 बी1-3-59/2018-39—50—जोकीहाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन, 2018 के अवसर पर एकजट पोल से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-576/एकजट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्या./एसडीआर/खंड-1/2018 दिनांक 18.05.2018 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सोहन कुमार ठाकुर,
अपर सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/तारीख 18 मई 2018

सं. 576/एजिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्या./एसडीआर/खंड-1/2018—यतः आयोग ने दिनांक 26 अप्रैल, 2018 के प्रेसनोट संख्या ईसीआई/प्रेनो/32/2018 के द्वारा महाराष्ट्र, नागालैण्ड एवं उत्तर प्रदेश तथा बिहार, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश एवं पश्चिम बंगाल की राज्य विधान सभाओं के उप-निर्वाचनों हेतु कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है,।

2. यतः आयोग द्वारा इस प्रकार से घोषित कार्यक्रम के अनुसार महाराष्ट्र, नागालैण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, केरल, मेघालय, पंजाब, उत्तराखण्ड एवं पश्चिम बंगाल राज्य के उप-निर्वाचन में मतदान 28.05.2018 को कराया जाना है, एवं

3. यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क के प्रावधानों के अनुसार, इस अवधि के दौरान कोई एग्जिट पोल आयोजित करना और उसका परिणाम प्रकाशित करना एवं प्रचारित करना, आयोग द्वारा यथा अधिसूचित अवधि तक प्रतिबन्धित है।

4. अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2)(ख) के उपबंधों के दृष्टिगत, एतद् द्वारा 28.05.2018 (सोमवार) को पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 06.30 बजे के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग द्वारा 26 अप्रैल, 2018 के प्रेसनोट द्वारा घोषित महाराष्ट्र के 11-भण्डारा-गोंदिया, 22-पालघर (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों एवं 285-पलुसकंडे गांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, नागालैण्ड के नागालैण्ड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तरप्रदेश के 2-कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 24-नूरपुर विधान सभा क्षेत्र तथा बिहार के 50-जोकीहाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखण्ड के 34-गोमिया एवं 61-सिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, केरल के 110-चेनगान्नूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मेघालय के 53-आमपाती (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पंजाब के 32-शाहकोट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तराखण्ड को 05-थराली (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के 155-महेशला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप-निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

5. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन, अपर्युक्त साधारण निर्वाचनों के संबंध में प्रत्येक चरण में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाला 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित, किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

आदेश से,
के. एफ. विल्फ्रेड,
वरिष्ठ प्रधान सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/ Dated 18th May, 2018

No. 576/EXIT/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/Vol.I/2018—Whereas, the schedule for the Bye-Elections to the House of the People in the States of Maharashtra, Nagaland & Uttar Pradesh and State Legislative Assemblies of Bihar, Jharkhand, Kerala, Maharashtra, Meghalaya, Punjab, Uttarakhand, Uttar Pradesh and West Bengal, have been announced by the Commission vide Press Note No. ECIIPN/32/20 18, dated 26th April, 2018.

2. Whereas, as per the schedule so announced by the Commission, poll for the bye-election in the State of Maharashtra, Nagaland, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Kerala, Meghalaya, Punjab, Uttarakhand and West Bengal is to be taken on 28.05.2018; and

3. Whereas, as per the provisions of Section 126A of the R.P. Act, 1951, there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period as may be notified by the Election Commission in this regard;

4. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-Section (1) of section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of Sub-Section (2)(b) of the said Section, hereby notifies the period between 7.00 A.M. and 6.30 P.M. on 28-05-2018 (Monday), as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by

means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any Exit Poll in connection with the said bye-elections announced vide the Commission's Press Note No. ECIIPN/32/2018, dated 26th April, 2018 from 11-Bhandara Gondiya, 22-Palghar (ST) Parliamentary Constituencies & 285-Palus Kadegaon Assembly Constituency in Maharashtra, Nagaland Parliamentary Constituency in Nagaland, 2- Kairana Parliamentary Constituency & 24-Noorpur Assembly Constituency in Uttar Pradesh, 50-Jokihat Assembly Constituency in Bihar, 34-Gomia & 61-Silli Assembly Constituencies in Jharkhand, 110-Chengannur Assembly Constituency in Kerala, 53- Ampati(ST) Assembly Constituency in Meghalaya, 32-Shahkot Assembly Constituency in Punjab, 05-Tharali(SC) Assembly Constituency in Uttarakhand and 155-Maheshtala Assembly Constituency in West Bengal, shall be prohibited.

5. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hour fixed for conclusion of poll for the aforesaid bye-elections.

By Order,
K.F WILFRED,
SR.PRINCIPAL SECRETARY.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 471-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>